



CIN : L74899DL1993PLC052787

## SOM DISTILLERIES & BREWERIES LTD.

ISO 9001:2015 Certified Company

Corporate Office : 23, Zone-II, Maharana Pratap Nagar, Bhopal-462 011 (Madhya Pradesh) Tel.: +91-755-4278827, 4271271 Fax : +91-755-2557470

E-mail : [sdlttd@bsnl.in](mailto:sdlttd@bsnl.in), [somdistilleries@rediffmail.com](mailto:somdistilleries@rediffmail.com), Web : [www.somindia.com](http://www.somindia.com)

Works : Village Rojrachak, Distt. Raisen (Madhya Pradesh) Ph.: +91-7480-266244-5

SDBL/BSE/NSE/2021

Date: 16.07.2021

The Manager, Listing Department, <b>NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED</b> 'Exchange Plaza' C-1 , Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. <a href="mailto:cmlist@nse.co.in">cmlist@nse.co.in</a> Security ID: SDBL	Dy. General Manager, Department of Corporate Services, <b>BSE LIMITED,</b> First Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001. <a href="mailto:corp.compliance@bseindia.com">corp.compliance@bseindia.com</a> Security ID: 507514
--	---

### SUB.: NEWSPAPERS ADVERTISEMENT OF NOTICE TO SHAREHOLDERS - INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY RELATED

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith an advertisement published in newspapers - Notice of Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

The above-mentioned advertisement is published in Business Standard Hindi and Business Standard English, newspapers on July 16, 2021.

The same has also been uploaded on the Company's website [www.somindia.com](http://www.somindia.com).

This is for your information and records please.

For Som Distilleries & Breweries Limited

Om Prakash

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: aa



## SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED

Registered Office: Office No.123, Angappa Naicken Street, Chennai-600 001.  
Head Office: Level 3, Wockhardt Towers, East Wing C-2 Block, Bandra Kuria complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Tel. 022 42410400 / 40603100,  
Branch Office: Plot No. 8A, Udaygiri, Lokmat Square, Behind Jasleen Hospital, Dhantoli, Nagpur 440012 Website: www.shriramcity.in

### SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas the undersigned being the authorised officer of Shriram City Union Finance Limited under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (said Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (said Rules) issued a demand notice to the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Mortgagor(s) details of which are mentioned in the table below to repay the amount mentioned in the said demand notice.

The Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Mortgagor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Mortgagor(s) and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of Shriram City Union Finance Limited has taken the Symbolic Possession of the mortgaged properties described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, on this 14th July, 2021.

Borrower Name and Address	Demand Notice	Description of Property
1. Mr. Sunil Govardhan Acharya	Rs. 59,34,182/- (Rs. Fifty Nine Lakh Thirty Four Thousand One Hundred Eighty Two Only) as per Arbitral Decretal amount award calculation dated 3rd April 2021 under Loan agreement No. CDNRNTF1601070004 with further interest at the contractual rate, within 60 days from the date of receipt of the said notice.	All that piece & parcel Nazul hold right Plot No. 218,219 & 220 admeasuring about total area 667.50 sq. ft. (i.e. 62.03 sq. mtrs), CSN 422, Sheet No. 174, NMC house no. 107, ward no.28, circle no. 9/14, Mouza Nagpur situated at Bapurao Lane, Itwari Tahsil & District Nagpur. Bounded:- Towards East:- Lane bearing Nazul No. 220 Towards West:- House of Shri Narayan Towards North:- Lane and then House of Raghunath Towards South:- Lane and then House of Dhundiraj
2. Mrs. Chandrakala Goverdhan Acharya	Rs. 47,36,516/- (Rs. Forty Seven Lakh Thirty Six Thousand Five Hundred Sixteen Only) as per Arbitral Decretal amount award calculation dated 3rd April 2021 under Loan agreement No. CDNRNTF1606070001 with further interest at the contractual rate, within 60 days from the date of receipt of the said notice.	All that piece & parcel land bearing Plot No. 2, admeasuring about 139.354 sq. mtr. (i.e.1500 sq. ft.) (after regularisation the area of the plot is 114,2500sq. mtr. i.e. 1229.787 sq. ft) of Khasra No. 32/2, Mouza Harpur, corn. house no. 3158A/2, CSN 539, sheet No. 15, PHN 39/A, situated within the limits of NIT & NMC Tahsil & District Nagpur. Bounded:- On the East:- Plot No. 3 On the West:- Plot No. 1 On the North:- 80 Ft. Wide Road On the South:- Plot No. 18

The borrower (s)/guarantor (s)/mortgagor (s) in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Shriram City Union Finance Limited for an amount of Rs. 59,34,182/- (Rs. Fifty Nine Lakh Thirty Four Thousand One Hundred Eighty Two Only) as per Arbitral Decretal amount award calculation dated 3rd April 2021 under Loan agreement No. CDNRNTF1601070004 and Rs. 47,36,516/- (Rs. Forty Seven Lakh Thirty Six Thousand Five Hundred Sixteen Only) as per Arbitral Decretal amount award calculation dated 3rd April 2021 under Loan agreement No. CDNRNTF1606070001 with further interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

1. Mr. Satish Ramaji Ashtankar	Rs. 47,36,516/- (Rs. Forty Seven Lakh Thirty Six Thousand Five Hundred Sixteen Only) as per Arbitral Decretal amount award calculation dated 3rd April 2021 under Loan agreement No. CDNRNTF1606070001 with further interest at the contractual rate, within 60 days from the date of receipt of the said notice.	All that piece & parcel land bearing Plot No. 2, admeasuring about 139.354 sq. mtr. (i.e.1500 sq. ft.) (after regularisation the area of the plot is 114,2500sq. mtr. i.e. 1229.787 sq. ft) of Khasra No. 32/2, Mouza Harpur, corn. house no. 3158A/2, CSN 539, sheet No. 15, PHN 39/A, situated within the limits of NIT & NMC Tahsil & District Nagpur. Bounded:- On the East:- Plot No. 3 On the West:- Plot No. 1 On the North:- 80 Ft. Wide Road On the South:- Plot No. 18
2. Mrs. Swati Satish Ashtankar	Rs. 47,36,516/- (Rs. Forty Seven Lakh Thirty Six Thousand Five Hundred Sixteen Only) as per Arbitral Decretal amount award calculation dated 3rd April 2021 under Loan agreement No. CDNRNTF1606070001 with further interest at the contractual rate, within 60 days from the date of receipt of the said notice.	All that piece & parcel land bearing Plot No. 2, admeasuring about 139.354 sq. mtr. (i.e.1500 sq. ft.) (after regularisation the area of the plot is 114,2500sq. mtr. i.e. 1229.787 sq. ft) of Khasra No. 32/2, Mouza Harpur, corn. house no. 3158A/2, CSN 539, sheet No. 15, PHN 39/A, situated within the limits of NIT & NMC Tahsil & District Nagpur. Bounded:- On the East:- Plot No. 3 On the West:- Plot No. 1 On the North:- 80 Ft. Wide Road On the South:- Plot No. 18
3. Mr. Raju Ramaji Ashtankar	Rs. 47,36,516/- (Rs. Forty Seven Lakh Thirty Six Thousand Five Hundred Sixteen Only) as per Arbitral Decretal amount award calculation dated 3rd April 2021 under Loan agreement No. CDNRNTF1606070001 with further interest at the contractual rate, within 60 days from the date of receipt of the said notice.	All that piece & parcel land bearing Plot No. 2, admeasuring about 139.354 sq. mtr. (i.e.1500 sq. ft.) (after regularisation the area of the plot is 114,2500sq. mtr. i.e. 1229.787 sq. ft) of Khasra No. 32/2, Mouza Harpur, corn. house no. 3158A/2, CSN 539, sheet No. 15, PHN 39/A, situated within the limits of NIT & NMC Tahsil & District Nagpur. Bounded:- On the East:- Plot No. 3 On the West:- Plot No. 1 On the North:- 80 Ft. Wide Road On the South:- Plot No. 18

The borrower (s)/guarantor (s)/mortgagor (s) in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Shriram City Union Finance Limited for an amount of Rs. 59,34,182/- (Rs. Fifty Nine Lakh Thirty Four Thousand One Hundred Eighty Two Only) as per Arbitral Decretal amount award calculation dated 3rd April 2021 under Loan agreement No. CDNRNTF1601070004 and Rs. 47,36,516/- (Rs. Forty Seven Lakh Thirty Six Thousand Five Hundred Sixteen Only) as per Arbitral Decretal amount award calculation dated 3rd April 2021 under Loan agreement No. CDNRNTF1606070001 with further interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Place: Nagpur Date: 14-07-2021

Sd/- Authorised Officer  
Shriram City Union Finance Ltd

### SALE NOTICE

#### OFFICE OF THE LIQUIDATOR

M/S. VEESONS ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED (Under Liquidation)  
Reg. Off. C 14/2, Industrial Estate, Thuvakudi, Thiruchirappalli  
Tamilnadu - 620 015. Phone : 0422-2492454 E-mail : ragavcarp@gmail.com

**E-AUCTION - SALE OF PROPERTIES UNDER IBC 2016**  
Date and Time of Auction on Monday 28th July 2021 between 10.00 am and 05.00 pm  
Sale of Properties, owned by M/s.Veesons Energy Systems Private Limited (under liquidation) forming part of the Liquidation Estate, by the Liquidator, approved by the Hon'ble NCLT, Chennai. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform at the web portal of <https://ncltauction.auctiontiger.net>

Sr. No.	Description of Immovable / Movable properties located at factory land / premises at SIDCO Industrial Estate, Thuvakudi, Thiruchirappalli, Tamilnadu.
1.	Plant and Machinery located in R1 and C-13 in the Factory Land
2.	Factory land measuring 2.65 acres at Plot C-13, and building constructed thereon
3.	Factory Land measuring 13.64 acres in Plot No. R-1, and the building shed thereon

#### Brief Details

- The full details, bid form, terms & conditions & procedure can be downloaded from Website <https://ncltauction.auctiontiger.net> and by contacting liquidator by email to ragavcarp@gmail.com
- The properties mentioned above can be inspected by the prospective bidders at the site on specified dates, viz., 19.07.2021 and 20.07.2021.
- The complete plant & machinery offered for sale has been segregated in to 13 lots for piece meal auction of line items.

R. Raghavendran B.Com., FCA, CISA  
IBBI/PA-001/IP-P00211/2017-18/10411  
Liquidator  
M/s. Veesons Energy Systems Pvt. Ltd.,  
Date : 15th July 2021  
Place : Coimbatore

### E-AUCTION SALE NOTICE

(Under Regulation 32 & 33 of IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016)  
**Stride Autoparts Limited (Under Liquidation) (SAL)**  
CIN: U34300DL2010PLC210810

Liquidator of SAL hereby invites Eligible Bidder(s) for participation in E- Auction Sale of Assets of SAL, listed herein, on "As is Where is, Whatever There is & Without Recourse" basis as per the schedule listed herein & as per the conditions & Process listed in bid document which can be downloaded from <https://ncltauction.auctiontiger.net>

Description of Assets	Reserve Price (Rs. Crores)	EMD (10%) (Rs. Crores)	Incremental Bid (Rs. Lacs)
<b>Leasehold Industrial Property (Immovable)</b> Industrial Property Bearing Plot No. SP-255, in Industrial Area Kehrani (Bhiwadi Extension), District -Alwar Rajasthan). Plot Area measuring 59693.25 Sq. Mtr. Total Built -up Area of Industrial Property 2,58,625 Sq. ft. and the Built up area is consist of two working Shed, two Cooling area Building, 2 Guard Room, Basement, Canteen & Lab, Switch Yard Panel Room, Control Room, Office Area and other amenities like wash room, water tanks, Open Tank etc.	54.50 (Rupees Fifty Four Crores Fifty Lakhs Only)	5.45 (Rupees Five Crores Forty Five Lakh Only)	25.00 (Rupees Twenty Five Lacs Only)
<b>Entire Plant &amp; Machinery of Plant site of SAL</b> at Plot No. SP-255, in Industrial Area Kehrani (Bhiwadi Extension), District -Alwar Rajasthan). Used in manufacturing of parts & accessories for motor vehicles & their engines like brakes, gear, boxes, axles, road wheels, suspension shock absorbers, radiators, silencers, exhaust pipes, steering wheels, steering column, steering boxes and other parts and Accessories N.E.C.			

**Site Visit & Discussion Meeting** on : 20th July, 2021 from 11:00 A.M. to 04:00 P.M.  
**Last Date of Document Submission upto** : 22nd July, 2021 Till 05:00 P.M.  
**Last Date & Time of EMD Submission**: Upto 30th July, 2021 till 05:00 P.M.  
**Date/Time of E-Auction** : 02nd August, 2021 from 02:00 P.M. to 05:00 P.M.  
Interested Applicants are required to deposit EMD amount either through NEFT/RTGS in the EMD A/C No. 03881100065273 in the name of Beneficiary "Stride Autoparts Ltd. (Under Liquidation)", Name of the Bank- Punjab And Sind Bank, IFSC CODE: PSIB0000388, Branch: Nehru Place, New Delhi.

\* The complete details of the Land & Building and Plant & Machinery can be sought after signing the confidentiality undertaking with the Liquidator.  
\* Interested Applicants are advised to refer the Bid Documents and Submit the complete Bid Documents along with proof of deposit of EMD in hard copy to the Liquidator and upload on E-Auction Website <https://ncltauction.auctiontiger.net>  
Pankaj Khatan (Liquidator)  
In the Matter of Stride Autoparts Ltd.  
Regn. No.: IBBI/PA-002/IP-N00010/2016-17/10014  
Reg. Add.: K-37/A, Basement, Kailash Colony, Near Kailash Colony Metro Station, Delhi-110048.  
Email: liquidatorstrideautoparts@gmail.com, ipankajkhatan@gmail.com  
Date: 16/07/2021 Place: New Delhi  
Contact No.: 9999883792 & 9310201908

## SOM DISTILLERIES AND BREWERIES LTD

Registered Office: I-A, Zee Plaza, Arjun Nagar, Sefdarjung Enclave, Kamal Cinema Road, New Delhi - 110029 Phone: +91-11-26189808, 26189712 Fax: +91-11-26189887  
Corporate Office: SOM House, 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)-462011  
Phone: +91-755-4278827, 4271271 Fax: +91-755-257470 Email: compliance@somindia.com  
Website: www.somindia.com CIN : L74899DL1993PLC052787 (BSE : 507514, NSE : SDBL)

### NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IIEPF) Authority

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2018 ("IEPF Rules") and amendments made thereto, the final dividend (which remained unclaimed for a period of seven consecutive years) declared during the Financial Year 2011-12 & 2012-13 have been transferred/ and for FY 2013-14 will be due in September, 2021 to be transferred to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") as per the applicable provisions of the Act and IEPF Rules. Also the Equity Shares pertaining to the aforesaid dividend account(s) will consequently be transferred to IEPF Authority.

Amidst the COVID-19 pandemic and adhering to the various requirements set out in the IEPF Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority under the said Rules for taking appropriate action(s) in the best possible manner and the details of such shareholders are uploaded on the website of the Company at [www.somindia.com](http://www.somindia.com).

In this connection, please note the following:

- In case you hold shares in physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) which stand registered in your names and held by you, will stand automatically cancelled.
- In case you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to the IEPF.

In the event, valid claim is not received from the concerned shareholders on or before 10th August, 2021, the Company will proceed to transfer the Equity shares in favor of IEPF without any further notice. Please note that the concerned shareholders can claim the shares from IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the same, duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company/RTA), along with the requisite documents enumerated in Form IEPF-5, to the Nodal Officer of the Company. Please also note that no claim shall lie against the Company in respect of shares/ unclaimed dividend transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

For claiming unclaimed/unpaid dividend the shareholders may contact the Registrar and Transfer Agent, M/s MAS Services Limited, Unit: Som Distilleries and Breweries Limited, T-34, 1st Floor Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020, Phone- 011-26387281-83, Fax: 011-26387384, E-mail: [info@massev.com](mailto:info@massev.com).

For Som Distilleries and Breweries Limited  
Sd/-  
Nekul Kam Sethi  
Director  
Place: Bhopal  
Date: 15.07.2021

### Brigade Enterprises Limited

Corporate Identity Number (CIN): L8510KA1995PLC019126  
Regd. Off: 29<sup>th</sup> & 30<sup>th</sup> Floor, World Trade Center, Brigade Gateway Campus, 26/A, Dr. Rajkumar Road, Malleswaram-Rajajinagar, Bangalore - 560 055  
Phone: 080 4137 9200  
Email: [investors@brigadegroup.com](mailto:investors@brigadegroup.com)  
Website: [www.brigadegroup.com](http://www.brigadegroup.com)



### Notice

#### NOTICE OF THE TWENTY SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE:

Notice is hereby given that the Twenty Sixth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, 10<sup>th</sup> August, 2021 at 10:30 a.m. IST in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities & Exchange Board of India from time to time to transact the business set forth in the Notice of the AGM.

The Notice of the Twenty Sixth Annual General Meeting and Annual Report will be sent through electronic mode only to such Members whose email IDs are registered with the Company/Registrar & Transfer Agents of the Company (RTA) or the Depository Participant(s).

The copy of the Annual Report is also available on the Company's website [www.brigadegroup.com](http://www.brigadegroup.com), the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), The National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and RTA <https://evoting.karvy.com>. Members may note that no physical / hard copies of the Annual Report would be sent.

Members holding shares in dematerialised mode and who have not registered their email ID are requested to register their email address and mobile numbers with respective Depository Participant(s). Members holding shares in physical mode who have not registered their email ID with the RTA are requested to furnish a scanned signed copy of the request letter providing their email id, mobile number along with self attested copies of Permanent Account Number (PAN), proof of address and front & back of the share certificate to the Company/RTA at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) or [investors@brigadegroup.com](mailto:investors@brigadegroup.com) for receiving the Annual Report electronically. Alternatively, the request with the above documents can also be sent to M/s. KFin Technologies Private Limited, Unit: Brigade Enterprises Limited at Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032.

In accordance with the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has fixed Tuesday, 3<sup>rd</sup> August, 2021 as the Record Date for determining the Members eligible for the Final Dividend on Equity Shares, if declared at the ensuing Annual General Meeting of the Company for the financial year 2020-21. The Dividend, if declared at the Annual General Meeting will be paid on or before 8<sup>th</sup> September, 2021. Effective 1<sup>st</sup> April, 2020 dividend income is taxable in the hands of the shareholders. Hence members are requested to update the details of their residential status, PAN & category as per Income Tax Act, 1961 with the RTA/Company by providing the same to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) or [investors@brigadegroup.com](mailto:investors@brigadegroup.com) in case of shares held in physical form and with your Depository Participant in case of shares held in demat form.

In accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members are being provided with facility to electronically vote on the resolutions proposed to be passed in the Twenty Sixth Annual General Meeting through remote e-voting as well as e-voting during the AGM. The e-voting platform is being provided by M/s. KFin Technologies Private Limited and Members can cast their vote electronically by accessing the website <https://evoting.karvy.com>. The e-voting period commences on Saturday, 7<sup>th</sup> August, 2021 at 9:00 a.m. and closes on Monday, 9<sup>th</sup> August, 2021 at 5:00 p.m. During this period, the Members of the Company holding shares in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date being Tuesday, 3<sup>rd</sup> August, 2021 may cast their vote by electronic means after which the e-voting module shall be disabled by M/s. KFin Technologies Private Limited. Detailed instructions to members for participating in the Twenty Sixth AGM through VC/OAVM including the manner of participation and voting is set out in the Notice of AGM.

Members may contact the Company at the registered office specified above or the RTA at the following address for any queries/clarifications/grievances relating to e-voting/Annual Report:

Unit: M/s. KFin Technologies Private Limited  
Selenium Tower B, Plot No.: 31 & 32,  
Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal,  
Hyderabad - 500 032  
Ph No.: 040 6716 1500, Fax No.: 040 2342 0814  
Email: [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com)

For Brigade Enterprises Limited  
Sd/-  
P. Om Prakash  
Company Secretary & Compliance Officer  
Bangalore  
15<sup>th</sup> July, 2021

DODLA DAIRY LIMITED		EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2021									
		STANDALONE					CONSOLIDATED				
Sl.No	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED		QUARTER ENDED		YEAR ENDED			
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021
		Audited Refer Note 3	Audited Refer Note 5	Unaudited Refer Note 4	Audited	Audited	Audited Refer Note 3	Audited Refer Note 5	Unaudited Refer Note 4	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	5,055.60	4,678.24	4,912.65	18,369.04	19,876.16	5,304.94	4,971.99	5,274.26	19,440.06	21,393.73
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	200.18	518.17	-60.91	1654.78	478.69	240.88	563.93	-19.42	1,862.16	818.71
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	200.18	518.17	-60.91	1654.78	478.69	240.88	563.93	-19.42	1,862.16	818.71
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	68.68	348.62	-60.91	1083.94	284.71	95.85	416.07	-19.42	1,259.70	498.71
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	72.94	344.21	-61.51	1087.34	282.33	100.19	417.32	-6.99	1,259.35	548.45
6	Equity Share Capital	583.25	556.72	556.72	583.25	556.72	583.25	556.72	556.72	583.25	556.72
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				5459.27	3413.07				5,996.45	3,778.24
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)										
	Basic:	1.20	6.26	-1.09	19.34	5.11	1.68	7.47	-0.35	22.48	8.96
	Diluted:	1.19	6.26	-1.09	19.22	5.11	1.67	7.47	-0.35	22.33	8.96

Notes:

- The above audited results, as reviewed by the Audit Committee, were considered, approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 14 July 2021.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results is available on the stock exchange websites, [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.dodladairy.com](http://www.dodladairy.com).
- The standalone/consolidated figures for the quarter ended 31 March 2021 are the balancing figure between the audited standalone/consolidated figures in respect of the full financial year and the unpublished audited year to date standalone/consolidated figures up to the third quarter of the current financial year.
- The standalone/consolidated figures for the quarter ended 31 March 2020 are the balancing figure between the audited figures in respect of the full financial year ended 31 March 2020 and the unpublished unaudited year to date figures up to the third quarter of the financial year ended 31 March 2020. Also, the standalone/consolidated figures upto the end of third quarter of the financial year ended 31 March 2020 were neither reviewed nor subject to audit, however, the management has exercised necessary due diligence to ensure that the financial results for this period provide a true and fair view of the Company's affairs.
- The standalone/consolidated figures for the quarter ended 31 December 2020 are the balancing figure between the unpublished audited year to date figures up to the third quarter of the current financial year and unpublished audited year to date figures up to the second quarter of the current financial year.

Place: Hyderabad

By order of the Board  
For Dodla Dairy Limited  
Sd/-  
Dodla Sunil Reddy  
Managing Director  
DIN: 00794889



